


HONDA

**PUMPSET
WBK 15**



OWNER'S MANUAL

ग्राहक पुस्तिका

Honda Siel Power Products Limited

होण्डा सीएल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

Honda WBK 15

OWNER'S MANUAL

ग्राहक पुस्तिका

Keep this owner's manual handy so that you can refer to it at any time. This owner's manual is considered a permanent part of the pumpset and should remain with the pumpset if resold.

ग्राहक पुस्तिका को हमेशा अपने साथ रखें ताकि जरूरत के समय देखी जा सके। यह ग्राहक पुस्तिका पम्पसेट का स्थायी भाग माना जाता है इसलिए पम्पसेट के बिकने के बाद भी यह साथ रहनी चाहिये।

The information and specifications included in effect at the time of this publication were in approval for printing. Honda Siel Power Products Ltd. reserves the right, however, to discontinue or change specifications or design at any time without notice and without incurring any obligation whatsoever.

इस प्रकाशन में शामिल जानकारी और विशिष्टताओं को मुद्रण के लिए अनुमोदन के समय में प्रभाव में थे। होण्डा सीएल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सूचना के बिना और किसी भी दायित्व उठाने के बिना किसी भी समय विशिष्टताओं या डिजाइन को बंद या परिवर्तित करने का हक रखता है।

Honda Selling Dealer होण्डा बिक्री डीलर

Name : _____
नाम

Address : _____
पता

Tel. No. : _____
दूरभाष नंबर

PDI Date _____
पी. डी. आई. तारीख

Warranty valid upto _____
वारण्टी वैधता

Usage Type _____ Commercial / Non-commercial / Rental
उपयोग वाणिज्यिक / गैर वाणिज्यिक / किराये हेतु

INTRODUCTION परिचय

Congratulations on your selection of a Honda Portable Pumpset. We are certain you will be pleased with your purchase of one of the finest pumpsets in the market.

विश्व स्तरीय होण्डा पोर्टेबल पम्पसेट खरीदने पर हम आपको बधाई देते हैं। हमें विश्वास है कि आप विश्व में सबसे बढ़िया पम्पसेटों में से एक को खरीद के खुश रहेंगे।

We want to help you get the best results from your new pumpset and to operate it safely. This manual contains all the information on how to do that; please read it carefully.

हम आपको अपने नए पम्पसेट से अच्छे परिणाम पाने के लिए और इसे सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए मदद करना चाहते हैं। कृपया पम्पसेट को सुचारु रूप से चलाने एवं सही रख-रखाव के लिए ग्राहक पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

As you read this manual, you will find information preceded by a **NOTICE** symbol. That information is intended to help you avoid damage to your pumpset, other property, or the environment.

जैसे आप इस पुस्तिका को पढ़ेंगे, आपको **ध्यान रखें** के प्रतीक से सूचित किया गया है। यह जानकारी आपको अपने पम्पसेट, अन्य संपत्ति, या पर्यावरण को नुकसान से बचाने के इरादे से दी गयी है।

We suggest you read the warranty policy to fully understand its coverage and your responsibilities of ownership.

हम यह सुझाव देते हैं कि सुचारु रूप से पम्पसेट चलाने के लिए वारंटी नीति की सभी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ लें।

INTRODUCTION परिचय

When your pumpset needs scheduled maintenance, keep in mind that your authorised Honda servicing dealer is specially trained in servicing Honda pumpsets. Your authorized Honda servicing dealer is dedicated to your satisfaction and will be pleased to answer your questions and concerns.

पम्पसेट के सही रख-रखाव के लिए होण्डा पम्पसेट, होण्डा के अधिकृत डीलर द्वारा ही ठीक करवाना चाहिए जो कि होण्डा द्वारा प्रशिक्षित हैं। आपका अधिकृत सर्विस डीलर आपकी संतुष्टि के लिए समर्पित है और आपकी सभी समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए तत्पर है।

We welcome your valuable suggestions & feedback.

हम आपके बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

Kindly send your feedback to Marketing Manager:

कृपया, विपणन प्रबंधक को अपनी प्रतिक्रिया भेजें।

or else

अथवा

contact our Customer Care Centre for Support :

सहायता के लिए हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें:

Honda Siel Power Products Limited,
Phone No.: 0120-2341050-59, Fax: 0120-2341078-79,
e-mail : ho.mktg@hspp.com
Working Hours : 08:15 A.M. to 05:15 P.M. (Mon to Fri)
होण्डा सीएल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
दूरभाष नंबर : ०१२०-२३४१०५० से ५९ फैक्स: ०१२०-२३४१०७८ से ७९
ई-मेल : ho.mktg@hspp.com
कार्य समय: प्रातः ०८:१५ से सायं ०५:१५ बजे तक (सोम से शुक्र)

Toll Free No.

1800 11 2323

टोल फ्री नंबर

१८०० ११ २३२३

Working Hours: 09:00 A.M. to 06:00 P.M.

(Available Monday to Sunday except on Public Holidays)

कार्यसमय: प्रातः ०९:०० से सायं ०६:०० बजे तक

(सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से रविवार तक उपलब्ध)

Best Wishes,

Honda Siel Power Products Ltd.

शुभकामनाएं

होण्डा सीएल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

To access information about Operations,
Maintenance & Troubleshooting, please visit:
www.hppsv.com/IND/

or scan



संचालन, रख-रखाव और समस्या निवारण
के बारे में कृपया देखें:

www.hppsv.com/IND/

या स्केन



A FEW WORDS ABOUT SAFETY

सुरक्षा के बारे में कुछ निर्देश

Your safety and the safety of others are very important, and using this pumpset safely is an important responsibility.

आपकी और दूसरों की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। पम्पसेट को सुरक्षितता के साथ चलाना आपका दायित्व है।

To help you make informed decisions about safety, we have provided operating procedures and other information on labels and in this manual. This information alerts you to potential hazards that could hurt you or others.

इस पुस्तिका में और पम्पसेट पर दिए लेबल पर संचालन प्रक्रियाएँ और अन्य जानकारी प्रदान की गई है, जो कि आपको सुरक्षा के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी। यह जानकारियाँ संभावित खतरे, जो आपको और दूसरों को जख्मी कर सकते हैं, उनसे सचेत करती है।

Of course, it is not practical or possible to warn you about all the hazards associated with operating or maintaining a pumpset. You must use your own good judgement.


बेशक यह व्यावहारिक नहीं है कि पम्पसेट के परिचालन के लिए हर संभावित खतरों के बारे में आपको बता सकें, आपको भी अपने अच्छे निर्णय का उपयोग करना चाहिए।

You will find important safety information in a variety of forms, including:

सुरक्षा निर्देश आपको विभिन्न स्थिति में मिलेंगे जैसे कि :

- **Safety Labels** - on the pumpset.

सुरक्षा निर्देश - आपके पम्पसेट पर लेबल दिए हुए हैं।

- **Safety Messages** - preceded by a safety alert symbol  and one of three signal words, DANGER, WARNING or CAUTION.

सुरक्षा संदेश - चेतावनी प्रतीक  के बाद और तीन संकेत शब्दों में से एक - खतरा, चेतावनी या सावधानी।

INTRODUCTION परिचय

These signal words mean:

इन सांकेतिक शब्दों का अर्थ है :

⚠ DANGER You **WILL** be **KILLED** or **SERIOUSLY HURT** if you don't follow instructions.

⚠ खतरा आपको गंभीर चोट लगेगी या आप मरेंगे, अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे।

⚠ WARNING You **CAN** be **KILLED** or **SERIOUSLY HURT** if you don't follow instructions.

⚠ चेतावनी आपको गंभीर चोट लग सकती है या आप मर सकते हैं अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे।

⚠ CAUTION You **CAN** be **HURT** if you don't follow instructions.

⚠ सावधानी आपको चोट लग सकती है अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे।

- **Safety Headings** - such as **IMPORTANT SAFETY INFORMATION**.

सुरक्षा शीर्षक - महत्वपूर्ण सुरक्षा अनुदेश।

- **Safety Section** - such as **PUMPSET SAFETY**.

सुरक्षा अनुभाग - जैसे कि पम्पसेट सुरक्षा।

- **Instructions** - How to use this **PUMPSET** correctly and safely.

निर्देश - सही ढंग से और सुरक्षित रूप से यह पम्पसेट का उपयोग कैसे करें।

This entire book is filled with important safety information - please read it carefully.

इस पूरी किताब में महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी है - कृपया ध्यान से पढ़ें।

CONTENTS विषय

PUMPSET SAFETY	6
पम्पसेट सुरक्षा	
SAFETY INSTRUCTIONS	9
सुरक्षा निर्देश	
COMPONENT IDENTIFICATION	11
उपकरणों की पहचान	
PRE-OPERATION CHECK	12
उपयोग के पहले जाँच	
OPERATION.....	15
प्रयोग	
SERVICING YOUR PUMPSET.....	18
पम्पसेट की सर्विस	
TRANSPORTING & STORAGE.....	20
परिवहन एवं भंडारण करना	
TROUBLE SHOOTING	21
खराबी ठीक करना	
SPECIFICATIONS	24
तकनीकी विवरण	
WARRANTY POLICY	26
वारण्टी पॉलिसी	
INSTALLATION & FREE SERVICES	28
संस्थापन और मुफ्त सेवा	
LIST OF AREA OFFICES	29
एरिया ऑफिस एड्रेस की सूची	
PDI & FREE SERVICE COUPONS	I-IV
पी.डी.आई. और मुफ्त सेवा कूपन	

PUMPSET SAFETY पम्पसेट सुरक्षा

IMPORTANT SAFETY INFORMATION महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी

Most accidents with pumpset can be prevented if you follow all instructions in this manual and on the pumpset. Some of the most common hazards are discussed below, along with the best way to protect yourself and others.

आप इस पुस्तिका में और पम्पसेट पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हैं, तो पम्पसेट के साथ अधिकांश दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। कुछ सबसे आम खतरों के बारे में आपसे नीचे चर्चा कर रहे हैं। खुद को और दूसरों की रक्षा करने के लिए नीचे दिये गये निर्देशों का पालन करें।

Operator Responsibility चलाने वाले की जिम्मेदारी

- Know how to stop the pumpset quickly in case of emergency.

आपातकालीन स्थिति में पम्पसेट को रोकने की जानकारी।

- Be sure that anyone who operates the pumpset receives proper instruction. Do not let children operate the pumpset without parental supervision.

ध्यान रखें की जो व्यक्ति पम्पसेट चला रहा है उसे पूरी जानकारी हो। बच्चों को माता पिता के पर्यवेक्षण के बिना पम्पसेट संचालित करने मत दें।

Carbon Monoxide Hazards कार्बन मोनोऑक्साईड के खतरे

An engine's exhaust contains toxic carbon monoxide, which you cannot see or smell. Breathing carbon monoxide can KILL YOU IN MINUTES. To avoid carbon monoxide poisoning, follow these instructions when operating a pumpset.

ध्यान रखें की इंजन निकास प्रणाली से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साईड गैस बाहर निकलती है जो कि बेरंग और गंधहीन होती है, इसके साँस लेने पर अंदर जाने से कुछ ही समय में कोई मर भी सकता है। इंजन चलाते समय कार्बन मोनोऑक्साईड का खतरा टालने के लिए नीचे दिए गये दिशा निर्देशों का पालन कीजिए।

- Only run a pumpset OUTSIDE, far away from windows, doors, and vents.

हमेशा पम्पसेट को खुले में ही चलायें, खुली खिड़की, दरवाजों या निकास के नजदीक में न चलायें।

- Never operate a pumpset inside a house, garage, basement, crawl or partially enclosed space. **Never ever operate a pumpset inside deep well.**

पम्पसेट को घर, गेराज, तहखाना, छोटी जगह या बंद अथवा आंशिक रूप से बंद जगह के अन्दर नहीं चलाये। **पम्पसेट को गहरे कुएँ में कतई ना चलाएँ।**

- Never operate a pumpset near open doors or windows.
कभी भी खुली खिड़की, दरवाजों के नजदीक में पम्पसेट न चलायें।
- Get fresh air and seek medical attention immediately if you suspect you have inhaled carbon monoxide.

अगर आपको संदेह है कि आपने साँस में कार्बन मोनोऑक्साईड खींच ली है, तो खुली हवा में ताज़ी साँस लें और तुरंत वैद्यकीय चिकित्सा करें।

Early symptoms of carbon monoxide exposure include headache, fatigue, shortness of breath, nausea, and dizziness. Continued exposure to carbon monoxide can cause loss of muscular coordination, loss of consciousness, and then death.

कार्बन मोनोऑक्साईड संपर्क के प्रारंभिक लक्षणों में सिर दर्द, थकान, साँस की तकलीफ, उल्टी और चक्कर आना शामिल हैं। निरंतर कार्बन मोनोऑक्साईड के संपर्क से माँसपेशियों के समन्वय की कमी, बेहोशी, और फिर मौत हो सकती है।

Fire and Burn Hazards आग और जलने के खतरें

- The exhaust system gets hot enough to ignite some materials.
निकास प्रणाली कुछ भी सामग्री प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त गर्म हो जाती है।
 - Keep the pumpset at least 1 meter away from buildings and other equipment during operation.
प्रयोग के दौरान पम्पसेट को इमारत की दिवारों और अन्य उपकरणों से कम से कम 1 मीटर (3 फुट) दूरी पर रखें।
 - Do not enclose the pumpset in any structure.
कृपया पम्पसेट किसी बंद जगह में न चलायें।
 - Keep flammable materials away from the pumpset.
कृपया पम्पसेट को ज्वलनशील सामग्री से दूर रखें।

PUMPSET SAFETY पम्पसेट सुरक्षा

- The muffler becomes very hot during operation and remains hot for a while after stopping the pumpset. Be careful not to touch the muffler while it is hot. Let the engine cool before storing the pumpset indoors.

मफलर प्रयोग के दौरान बहुत गर्म हो जाता है और पम्पसेट को रोकने के बाद थोड़ी देर के लिए गर्म रहता है। कृपया सावधानी बरतें, गरम अवस्था में मफलर को न छूने की खबरदारी लें। पम्पसेट का भंडारण करने से पहले उसे उपरोक्त टंडा होने दें।

Refuel With Care सावधानी से ईंधन भरना

Petrol is extremely flammable, and petrol vapour can explode.

Allow the engine to cool, if it has been in operation.

पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील है, और पेट्रोल की भाप विस्फोट कर सकती है। पम्पसेट का प्रयोग किया गया है, तो पम्पसेट को बंद करने के बाद उसे टंडा होने दें।

Refuel only outdoors in a well-ventilated area with the engine off.

ईंधन भरते समय पम्पसेट बंद रखे और खुली और हवादार क्षेत्र में ही भरें।

Do not refuel during operation.

उपयोग के दौरान ईंधन न भरें।

Do not overfill the fuel tank (See Page 33).

फ्यूल टैंक में ईंधन जरूरत से ज्यादा न भरें (पृष्ठ देखें 33)।

Never smoke near petrol, and keep other flames and sparks away.

पेट्रोल के पास धूम्रपान कभी नहीं करें और अन्य लपटें और स्पार्क से दूर रखें।

Always store petrol in an approved container.

Make sure that any spilled fuel has been wiped up before starting the pumpset.


पेट्रोल को हमेशा अनुमोदित कंटेनर में रखें।

सुनिश्चित करें कि पम्पसेट चालू करने से पहले फैला हुआ ईंधन साफ कर लिया गया है।

SAFETY INSTRUCTIONS सुरक्षा निर्देश

To ensure safe operation सुरक्षित चलाने के लिए

PLEASE DO NOT USE PUMPSET INSIDE AN ENCLOSED AREA. ENSURE ADEQUATE VENTILATION WHILE PUMPSET IS IN OPERATION.



कृपया पम्पसेट किसी बंद जगह में न चलायें।
पम्पसेट खुले वातावरण में ही चलायें जहाँ वायु
का पर्याप्त आवागमन हो।

Honda pumpset is designed to give safe and dependable service if operated according to instructions.

होण्डा पम्पसेट, यदि निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल किया गया, तो सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा देगा।

Read and understand the Owner's Manual before operating the pumpset. Failure to do so could result in personal injury or equipment damage.

पम्पसेट चलाने से पहले ग्राहक पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और समझ लें। ऐसा न करने से खुद को या उपकरण को नुकसान हो सकता है।

▲ WARNING EXHAUST GAS CONTAINS POISONOUS CARBON MONOXIDE.

▲ चेतावनी एग्जॉस्ट गैस से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है।

TO PREVENT FIRE HAZARDS, KEEP THE UNIT IN OPERATION. AT LEAST 3 FT. (1MTR.) AWAY FROM THE BUILDINGS / EQUIPMENTS. COMBUSTIBLE OR INFLAMMABLE MATERIALS SHOULD BE STORED AWAY.


आग के खतरों को रोकने के लिए प्रयोग के दौरान पम्पसेट को ईमारत / अन्य उपकरणों / ज्वलनशील प्रदार्थ से कम से कम 1 मीटर (3 फुट) दूरी पर रखें। ज्वलनशील पदार्थ को दूरी पर रखा जाना चाहिए।



SAFETY INSTRUCTIONS सुरक्षा निर्देश

WHILE REFILLING, STOP ENGINE
AND DO NOT SMOKE, WIPE SPILLED FUEL.

ईंधन भरते समय धूम्रपान न करें, पम्पसेट बंद करें
और फैले हुए ईंधन को साफ करें ।




⚠ CAUTION SPILLED FUEL MAY CAUSE FIRE.

⚠ सावधानी फैले हुए ईंधन से आग लग सकती है।


DO NOT CONNECT PIPE TO EXHAUST
MUFFLER.

निकास प्रणाली मफलर से पाइप को न जोड़ें।




DO NOT PUT A DUST COVER ON
THE PUMPSET WHILE IN
OPERATION.

पम्पसेट प्रयोग के समय कवर से न ढकें।



INCLINATION OF PUMPSET
SHOULD NOT EXCEED 20°
DURING OPERATION.



पम्पसेट प्रयोग के समय पम्पसेट का
झुकाव 20° से अधिक नहीं होना चाहिए।




COMPONENT IDENTIFICATION

उपकरणों की पहचान

- 1 ENGINE SWITCH इंजन स्विच
- 2 FUEL TANK फ्यूल टैंक
- 3 SPARK PLUG स्पॉर्क प्लग
- 4 CARRYING HANDLE कैरिंग हैंडल
- 5 PRIMING WATER FILLER CAP प्राइमिंग वाटर फिलर कैप
- 6 DISCHARGE PORT डिस्चार्ज पोर्ट
- 7 SUCTION PORT सक्शन पोर्ट
- 8 PUMP DRAIN PLUG पम्प ड्रेन प्लग
- 9 OIL FILLER CAP ऑयल फिलर कैप
- 10 OIL DRAIN BOLT ऑयल ड्रेन बोल्ट



- 11 OIL ALERT LAMP ऑयल अलर्ट लैम्प
- 12 PETROL TANK CAP पेट्रोल टैंक कैप
- 13 KEROSENE TANK CAP केरोसिन टैंक कैप
- 14 FUEL COCK फ्यूल कॉक
- 15 RECOIL STARTER GRIP रिकॉयल स्टार्टर ग्रिप
- 16 THROTTLE LEVER थ्रोटल लीवर
- 17 DRAIN COCK ड्रेन कॉक
- 18 AIR CLEANER एयर क्लीनर
- 19 CHOKE चोक
- 20 MUFFLER मफलर
- 21 STRAINER स्ट्रेनर



PRE-OPERATION CHECK

उपयोग से पहले जाँच

Always check the following items before you start the pumpset.

Check the General Condition of the Pumpset.

पम्पसेट को चालू करने से पहले निम्न परिस्थिति की जाँच कर लें।

पम्पसेट की साधारण हालत की जाँच करें।

1. Look around and underneath the pumpset for signs of oil or petrol leaks.

पम्पसेट के नीचे देखें कि कहीं ऑयल या पेट्रोल लीक तो नहीं हो रहा है।

2. Remove any excessive dirt or debris, especially around the muffler and recoil starter.

मफलर और रिकॉइल स्टार्टर के पास जमी हुई गन्दगी को हटाएं।

3. Look for sign of damage.

टूट फूट को जाँचें।

4. Check that all shroud and covers are in place, and all nuts, bolts, and screws are tightened.

जाँचें कि सभी श्राउड व कवर अपने जगह पर है, सभी नट, बोल्ट और पेंच कसे हुए हैं।

1. OIL LEVEL इंजन ऑयल स्तर जाँचे



Be sure to check the pumpset on a level surface with the pumpset stopped.



इंजन को बंद करके समतल सतह पर रखकर ही जाँचे।

1. Check the oil level, if the oil level is low.

इंजन का ऑयल स्तर जाँच ले।

2. Fill the oil to the upper level.

ऑयल को उपरी सतह तक भरें।

4-STROKE MOTOR OIL

SAE 10 W- 30


API SF or above

4 स्ट्रोक इंजन ऑयल


एस.ए.ई. 10 डब्लू-30

ए.पी.आई. एस.एफ

या उससे अधिक




OIL FILLER NECK
ऑयल भरने की जगह



OIL FILLER CAP/DIPSTICK
ऑयल फिलर कैप/डिपस्टिक

UPPER LIMIT
अधिकतम स्तर



LOWER LIMIT
न्यूनतम स्तर

PRE-OPERATION CHECK उपयोग से पहले जाँच


OIL ALERT SYSTEM ऑयल अलर्ट सिस्टम

- a. If the oil in the crankcase falls below a safe limit then the oil alert system will automatically turn the pumpset 'OFF'.

अगर क्रैन्ककेस में ऑयल का स्तर सुरक्षित स्तर से नीचे आता है तो ऑयल अलर्ट सिस्टम स्वचालित ढंग से पम्पसेट को 'ऑफ' कर देगा।

- b. In that case fill the oil to upper level and restart the pumpset.

ऐसा होने पर इंजन ऑयल उपरी स्तह तक भर कर पम्पसेट दुबारा स्टार्ट करें।




⚠ CAUTION Check engine oil before each operation.
Use only recommended engine oil.

⚠ सावधानी प्रत्येक ऑपरेशन से पहले इंजन ऑयल जाँच लें।
अनुशंसित इंजन ऑयल ही प्रयोग करें।

2. FUEL LEVEL फ्यूल स्तर

- a. Check the fuel level.

ईंधन का स्तर जाँचें।




- b. If the fuel level is low, fill to the shoulder of the fuel filter.

अगर यह कम है तो, फ्यूल फिल्टर लेवल तक ईंधन भर दीजिए।

⚠ CAUTION Never use an oil / petrol mixture or dirty Petrol.
Always use unleaded petrol only.

⚠ सावधानी गंदा / ऑयल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग ना करें।
हमेशा शीसा रहित पेट्रोल ही प्रयोग करें।




PRE-OPERATION CHECK उपयोग से पहले जाँच

3. AIR CLEANER एयर क्लीनर


- a. Open the air cleaner cover nut and remove air cleaner element.

एयर क्लीनर कवर नट को खोलिये और एयर क्लीनर कवर निकालिए।



- b. Check for dirt in the air cleaner element. If it is dirty clean it.

एयर क्लीनर एलीमेंट को जाँच लिजिये, अगर गंदा हो तो इसे साफ करें।




4. PUMP पम्प

- a. Connect the suction hose.

सक्शन होज़ को जोड़ दें।

⚠ CAUTION

Always use the strainer with the suction hose as gravel or debris sucked into the pump will cause serious impeller damage. Ensure proper clamping with band hose.



⚠ सावधानी

सक्शन होज़ के साथ हमेशा, स्ट्रेनर का इस्तेमाल करें वरना पम्प के अन्दर कंकड़ —कचरा जाने से उसके इम्पेलर को भारी नुकसान पहुँचेगा। होज़ क्लैम्प के साथ सही जुड़ा है, सुनिश्चित करें।

- b. Connect the discharge hose.


डिस्चार्ज होज़ को जोड़ दें।

- c. Check the priming water.

प्राइमिंग वाटर की जाँच करें।

It is recommended that the water chamber should be primed with full of water before operating.

सुझाव दिया जाता है कि पम्प चालू करने से पहले वाटर चैंबर में पूरा पानी भर कर ही प्राइमिंग की जाए।




⚠ CAUTION

Never attempt to operate the pump without priming water as the pump will overheat. Extended dry operation will destroy the pump seal.

⚠ सावधानी

पम्प को बिना प्राइमिंग पानी के न चलाएँ, वरना पम्प अत्याधिक गर्म हो जाएगा। ज्यादा समय तक सूखे पम्प को चलाने से उसकी सील खराब हो जाएगी।




OPERATION प्रयोग

STARTING THE ENGINE इंजन को चालू करना COLD STARTING ठंडा स्टार्ट


1. Turn the engine switch to the "ON" position.

इंजन स्विच को "ऑन" पोजिशन पर घुमा दीजिए।



2. Push the choke to "CLOSE".


चोक लीवर को "बंद" की दिशा में धकेलिये।



3. Ensure that the Fuel Cock is in STOP (CLOSED) position.

Then turn the drain cock to "ON" and drain the kerosene from the carburetor.


सुनिश्चित करें की फ्यूल कॉक को "स्टॉप" की दिशा में हो। फिर ड्रेन कॉक को "ऑन" की तरफ घुमाइये और कारबोरेटर में से केरोसिन निकाल दीजिये।



4. Turn the drain cock to "OFF".

Return any removed kerosene back to the kerosene tank.

ड्रेन कॉक को "ऑफ" पोजिशन में घुमायें। निकले हुए केरोसिन को वापस केरोसिन टैंक में डाल दीजिये।




5. Turn the fuel cock to "START".

फ्यूल कॉक को घुमाकर "स्टार्ट" पर कर दीजिये।

6. Raise the throttle lever slightly. Ensure that no/minimum load is connected to pumpset.

थ्रोटल लीवर को थोड़ा सा उठाइए। ध्यान रखें कि इंजन पर कम से कम या बिलकुल लोड न हो।




NOTE : Ensure priming water before starting.

OPERATION प्रयोग

7. Pull the starter grip lightly until resistance is felt, then pull briskly.

स्टार्टर ग्रिप को धीरे से खींचे जब तक आपको खिंचाव महसूस न हो, फिर दर्शाए गए तीर की दिशा में तेजी से खींच दें। धीरे से स्टार्टर वापस लौटने दें।




CAUTION : Do not allow the starter grip to snap back. Return it gently to prevent damage to the starter.

ध्यान रखें

स्टार्टर ग्रिप को तेजी से वापस न आने दें ।
स्टार्टर को क्षति से बचाने के लिए धीरे से स्टार्टर लौटने दें।


8. Turn the fuel cock to the "RUN" position.

फ्यूल कॉक को घुमाकर "रन" पर कर दीजिये।



9. Push the choke to "OPEN" position as engine warms.


चोक लीवर को "ओपन" की दिशा में धकेलिये।



HOT STARTING हॉट स्टार्ट


1. Turn the engine switch to the "ON" position.

इंजन स्विच को "ऑन" पोजिशन पर घुमा दीजिए।




2. Ensure the choke to "OPEN" position.

चोक लीवर को "ओपन" की दिशा में धकेलिये।




3. Raise the throttle lever slightly. Ensure that no/minimum load is connected to pumpset.

थ्रॉटल लीवर को थोड़ा सा उठाइए। ध्यान रखें कि इंजन पर कम से कम या बिलकुल लोड न हो।



4. Turn the fuel cock to "RUN" position.

फ्यूल कॉक को घुमाकर "रन" पर कर दीजिये।




NOTE : Ensure priming water before starting.

सूचना : शुरू करने से पहले पानी भरना सुनिश्चित करें।

5. Pull the starter grip lightly until resistance is felt, then pull briskly.

स्टार्टर ग्रिप को धीरे से खींचे जब तक आपको खिंचाव महसूस न हो, फिर दर्शाए गए तीर की दिशा में तेजी से खींच दें। धीरे से स्टार्टर वापस लौटने दें।



NOTICE

Do not allow the starter grip to snap back against the pumpset. Return it gently to prevent damage to the starter.















ध्यान रखें

स्टार्टर ग्रिप को तेजी से वापस न आने दें। स्टार्टर को क्षति से बचाने के लिए धीरे से स्टार्टर लौटने दें।

SERVICING YOUR PUMPSET पम्पसेट की सर्विस

MAINTENANCE SCHEDULE

रख-रखाव समय सारणी

REGULAR SERVICE PERIOD (3) Perform every indicated month or operating hour interval, whichever comes first. सामान्य सर्विस अवधि (3) हर संकेत महोने या ऑपरेंटिंग घंटे के अंतराल पर परफॉर्म करें, जो भी पहले आए।	Each use प्रत्येक उपयोग के पहले 	First month or पहले माह या 	Every 3 months or हर तीसरे माह या 	Every 6 months or हर छह माह या 	Every year or हर साल या 	3 Years 3 साल	Refer to page पेज देखें
ITEM चीजें							
Engine Oil इंजन ऑयल 	Check level लेवल जांचे	Change बदलें		Change बदलें			14
Element air cleaner एलिमेंट एयर क्लीनर 	Check जांचे		Clean साफ करें	Clean साफ करें	Replace बदलना		8
Spark plug स्पाक प्लग 				Clean साफ करें Check-adjust जांचे एडजैस्ट			14
Muffler मफलर 					Clean साफ करें (2)		
Cylinder head सिलिण्डर हैड 					Clean साफ करें (2)		
Fuel tubes & Filters फ्यूल टैंक व फिल्टर 					Clean साफ करें (2)	Change बदलें (2)	
Valve clearance वाल्व क्लोरेन्स 					Check-adjust जांचे एडजैस्ट (2)		
Impeller इम्पेलर 					Check जांचे (2)		
Casing / Gasket केसिंग / गैसकेट 					Check जांचे (2)		

(1) Service more frequently when used in dusty conditions.

धूल भरी जगह पर उपयोग करने पर सर्विस कम अंतराल में करें।

(2) These items should be serviced by your servicing dealer, unless you have the proper tools and are mechanically proficient. Refer to Honda shop manual for service procedure.

यह सारी चीजे होण्डा के अधिकृत डिलर द्वारा ही सर्विस करवानी चाहिये, अगर आपके पास उचित औज़ार और कुशलता नहीं है। सर्विस प्रक्रिया के लिए होण्डा शॉप मैनुअल का संदर्भ लें।

(3) For commercial use, log hours of operation to determine proper maintenance intervals.

वाणिज्यिक उपयोग के लिए इंजन उपयोग के घंटों को सही हिसाब रखें।

NOTE : Oil should be changed after 20 hours for new pumpset and then every 100 hours.


ध्यान दें : नये पम्पसेट में 20 घंटे बाद और बाद में हर 100 घंटे में ऑयल बदलना चाहिए।

SERVICING YOUR PUMPSET पम्पसेट की सर्विस


OIL CHANGE

ऑयल बदलना

1. Remove the oil filler cap.
ऑयल फिलर कैप को निकालो।




2. Remove the drain bolt, and drain the oil.
ऑयल ड्रेन बोल्ट को खोलिये और ऑयल निकालो।
3. Tighten the drain bolt.
ऑयल ड्रेन बोल्ट को कस दें।



4. Fill the new recommended oil to the edge of the oil filler neck.
नये अनुशंसित ऑयल को फिलर की ऊपरी सतह तक भर दीजिये।

5. Tighten the oil filler neck.
ऑयल फिलर कैप बंद कर दीजिये।



NOTICE

A loose spark plug can overheat and damage the engine. Over tightening the spark plug can damage the threads in the cylinder head.

AIR CLEANER


To clean air cleaner see page No. 8

एयर क्लीनर


एयर क्लीनर साफ करने के लिए पृष्ठ नं. 8 देखें।

SPARK PLUG स्पार्क प्लग


1. Remove the spark plug.
स्पार्क प्लग खोलें।



2. Clean the deposit.
प्लग में कार्बन है तो तार वाले ब्रश से साफ करें।



3. Measure the clearance.
फीलर गेज से प्लग का गैप नापें जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रोड दबा कर ठीक करें।
0.6 - 0.7 mm



ध्यान रखें

ढीला स्पार्क प्लग इंजन को गरम और नुकसान पहुँचा सकता है। ज्यादा कसने से स्पार्क प्लग सिलेंडर हेड की चूड़ीयाँ खराब कर सकता है।

TRANSPORTING & STORAGE

परिवहन एवं भंडारण करना

Transporting परिवहन

If the pumpset has been used, allow it cool for at least 15 minutes. A hot engine and exhaust system can burn you and can ignite some material. When transporting the pumpset, turn the engine switch and fuel cock to the OFF position, and keep the pumpset on a level surface to reduce the possibility of the fuel leakage.

अगर पम्पसेट चला हुआ है तो उसे 15 मिनट तक ठंडा होने दे। गर्म इंजन पैकिंग को जला सकता है। परिवहन करते समय इंजन स्विच और वाल्व लीवर को ऑफ पोजिशन में रखें और पम्पसेट का इंधन फैलने से बचाने के लिए सीधा रखें।

STORAGE भंडारण करना

⚠ WARNING चेतावनी

Petrol is highly flammable and explosive You can be burned or seriously injured when handling fuel.

- Stop the engine and keep heat, sparks, and flame away.
- Handle fuel only outdoors.
- Wipe up spills immediately.

पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक है! पेट्रोल भरते समय आपको गंभीर चोट या आप जल सकते हैं!

- इंजन बंद कीजिये, और पेट्रोल को गर्मी, स्पार्क, लौ से दूर रखें!
- इंधन को बाहर खुली जगह पर ही रखें!
- फैले हुए इंधन को साफ करें!

1. Be sure the storage area is free of excessive humidity and dust.
सुनिश्चित करें की जहाँ पर इंजन रखें वहाँ पर नमी और धूल मिट्टी ना हो।

2. Drain the fuel

इंधन को निकालें।

a. Place a suitable container under the drain tube.

ड्रेन ट्यूब के नीचे डिब्बा रखें।

b. Turn the fuel valve lever to the ON position. Turn the drain cock ON and drain the Petrol from the carburetor.

फ्यूल कॉक को ऑन पोजिशन में करें।

ड्रेन कॉक को ऑन करके कारबोरेटर से तेल निकालें।

c. After all the fuel has drained, turn the fuel cock and drain cock to the OFF position.

जब तेल निकल जायें तो फ्यूल कॉक और ड्रेन कॉक को ऑफ पोजिशन में कर दें।

3. Change the engine oil

इंधन ऑयल बदले।




4. Remove the spark plug and pour about a tablespoon of clean engine oil into the cylinder. Crank the engine several revolutions to distribute the oil, the reinstall the spark plug.

स्पार्क प्लग निकालें, सिलेंडर में एक चम्मच साफ इंजन ऑयल डालें और इंजन को घुमायें ताकी ऑयल सब जगह पहुंच जाये फिर स्पार्क प्लग को लगायें।

5. Slowly pull the starter grip until resistance is felt.

स्टार्टर ग्रिप को खींचें जब तक खिंचाव महसूस न हो।

6. Store the pumpset in clean area and cover it properly.
पम्पसेट को साफ जगह में रखें और ठीक से ढक दें।



TROUBLESHOOTING खराबी ठीक करना

ENGINE DOES NOT START इंजन चालू नहीं हो रहा	POSSIBLE CAUSE क्या कारण है	CORRECTION ठीक करने के सुझाव
1. Check control positions. कन्ट्रोल पोजिशन जाँचें।	Fuel Cock OFF. (STOP) फ्यूल कॉक ऑफ (स्टॉप) है।	Move lever to START position. लीवर को स्टार्ट पोजिशन में घुमायें।
	Choke open. चोक खुला है	Move lever to CLOSED position unless the pumpset is warm. लीवर को बंद पोजिशन में घुमायें जब पम्पसेट गरम हो ।
	Engine switch OFF. इंजन स्विच बंद है।	Turn pumpset switch to ON position. इंजन स्विच को आन पोजिशन में घुमायें।
2. Check engine oil level. इंजन ऑयल स्तर जाँचें।	Engine oil level low. इंजन ऑयल कम है।	Fill with the recommended oil to the proper level. अनुशंसित ऑयल को फिलर की उपरी सतह तक भर दीजिये।
3. Check fuel पेट्रोल जाँचें।	Out of fuel पेट्रोल नहीं है।	Refuel. पेट्रोल भरें।
	Bad fuel : Pumpset stored without treating or draining petrol, or refuelled with bad petrol. पम्पसेट में गंदा पेट्रोल है।	Drain fuel tank and carburetor. Refuel with fresh petrol. फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर से पेट्रोल निकालें। नया साफ तेल पेट्रोल टैंक में डालें।
4. Remove and inspect spark plug. स्पार्क प्लग खोलकर जाँचें।	Spark plug faulty, fouled, or improperly gapped. स्पार्क प्लग खराब है या गैप ठीक नहीं है।	Set specified gap or replace spark plug. गैप को ठीक करे या स्पार्क प्लग बदलें।
	Spark plug wet with fuel. स्पार्क प्लग तेल से गीला है।	Dry and reinstall spark plug. Start engine with throttle lever in MAX. position. स्पार्क प्लग सुखा कर लगायें। थ्रौटल लीवर को मैक्स पोजिशन में रख कर इंजन को चालू करें।
5. Fuel filter restricted carburetor malfunction, ignition malfunction, valve stuck, etc. फ्यूल फिल्टर में रूकावट से कार्बोरेटर का न काम करना, इग्निशन में कमी, वाल्व खराब इत्यादी।	Replace or repair faulty components as necessary. खराब पुर्जों को ठीक करें या बदलें।	Take pumpset to an authorized Honda servicing dealer, or refer to shop manual पम्पसेट को अधिकृत डीलर/सर्विस पॉइंट पर लें जाएँ।

TROUBLESHOOTING खराबी ठीक करना

ENGINE LACKS POWER इंजन में पावर नहीं है	POSSIBLE CAUSE क्या कारण है	CORRECTION ठीक करने के सुझाव
1. Check air filter. एयर फिल्टर जाँचें।	Filter element restricted. फिल्टर एलिमेन्ट बंद।	Clean or replace filter element. एयर फिल्टर साफ करें या बदलें।
2. Check fuel पेट्रोल जाँचें।	Bad fuel : Engine stored without treating or draining petrol, or refuelled with bad petrol/Kerosene. पम्पसेट में गंदा पेट्रोल/केरोसिन है।	Drain fuel tank and carburetor. Refuel with fresh petrol/ Kerosene. फ्यूल टैंक और कारबोरेटर से गंदा पेट्रोल/केरोसिन निकालें। नया साफ पेट्रोल/केरोसिन टैंक में डालें।
3. Fuel filter restricted carburetor malfunction, ignition malfunction, valve stuck, etc. फ्यूल फिल्टर में रूकावट से कारबोरेटर का न काम करना, इग्निशन में कमी, वाल्व खराब इत्यादी।	Replace or repair faulty components as necessary. खराब पुर्जों को ठीक करें या बदलें।	Take pumpset to an authorized Honda servicing dealer, or refer to shop manual पम्पसेट को अधिकृत डीलर/सर्विस पॉइंट पर ले जाएं।


TROUBLESHOOTING खराबी ठीक करना

When the pumpset cannot pump the water

जब पम्प पानी न खींच रहा हो

1. Is the pump fully primed ?

क्या पम्प पूरी तरह प्राइम किया गया है।




2. Is the strainer clogged ?

क्या स्ट्रेनर में कुछ अटक तो नहीं गया है?




3. Are the hose band installed securely ?

क्या होज़ मजबूती से लगाए गये हैं?




4. Are the hose damaged ?

क्या होज़ क्षतिग्रस्त है?




5. Is the suction head too high ?

क्या सक्शन हैड अत्याधिक ऊँचा है?



6. If the pump still does not pump then take pumpset to authorised dealer.

यदि तब भी पम्प काम नहीं कर रहा है तो उसे अधिकृत डीलर के पास ले जाएँ।



SPECIFICATIONS तकनीकी विवरण


Pumpset पम्पसेट	Model मॉडल
	WBK 15
Dimensions आयाम (L x W x H in mm) (लम्बाई X चौड़ाई X उंचाई मि.मी में)	385 x 295 x 355
Type किस्म	Centrifugal Self Priming, Monoblock Horizontal with Mechanical seal सेंट्रीफ्यूगल सेल्फ प्राईमिंग, मोनोब्लॉक हॉरिजॉन्टल मैकानिकल सील के साथ
Suction Port Diameter (in mm) सक्शन पोर्ट व्यास (मि.मी में)	38
Discharge Port Diameter (in mm) डिस्चार्ज पोर्ट व्यास (मि.मी में)	38
Dry Weight (in Kg) वजन (सूखा) (कि.ग्रा. में)	14
Total Head (in metres) कुल हेड (मीटर में)	38
Suction Head (in metres) सक्शन हेड (मीटर में)	7
Maximum Discharge (in litres per minute) अधिकतम डिस्चार्ज (लीटर में प्रति मिनट)	180
Rated Revolutions (rpm) रेटेड रेवोल्यूशन (आर.पी.एम)	3800
Priming Time प्राईमिंग टाइम	120 Sec / 5 m 120 सै.प्रति 5 मी.

Engine इंजन	Model मॉडल	
	GK100	
Type इंजन का प्रकार	4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled, Horizontal Shaft, Side Valve 4 स्ट्रोक, साइड वाल्व, एयर कूल्ड, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, सिंगल सिलेण्डर,	
Displacement (in cm ³) डिसप्लेसमेंट (सेमी ³)	97.7	
Bore x Stroke (in mm) बोर X स्ट्रोक (मि.मी में)	52.0 x 46.0	
Compression Ratio शन अनुपात	4.8 : 1	
Fuel Type इंधन प्रकार	Starts with चालू होता है Petrol पेट्रोल	
	Runs on चलता है Kerosene केरोसिन	
Net Power नेट पावर	1.3 kw/4200 rpm (1.8 HP/4200 rpm)	
Continuous rated Power कॉन्टिन्यूअस रेटिड पावर	1.0 kw/3600 rpm (1.4 HP/3600 rpm)	
Maximum Net Torque अधिकतम नेट टॉर्क	3.9 Nm/3000 rpm (25.9 lb-ft/3000 rpm)	
Ignition System इग्निशन प्रणाली	Transistorised magneto ट्रांसिस्टराइस्ड मैग्नेटो इग्निशन	
Air Cleaner एयर क्लीनर	Semi Dry सेमी ड्राई	
Fuel Tank Capacity (in Litres) फ्यूल टैंक क्षमता (लीटर में)	Petrol पेट्रोल	0.24
	Kerosene केरोसिन	1.0
Lubricating Oil capacity (in Litres) इंजन ऑयल क्षमता (लीटर में)		0.4

Note : Specifications are subject to change without prior notification.
ध्यान दें : विशिष्टताओं में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किये जा सकते हैं।

PERFORMANCE CURVE

परफोरमेन्स कर्व



Note : Specifications are subject to change without prior notification.

ध्यान दें : विशिष्टताओं में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किये जा सकते हैं।

INSTALLATION AND FREE SERVICES

संस्थापन और मुफ्त सेवा

1. PRE-DELIVERY INSPECTION (P.D.I.) वितरण पूर्व निरीक्षण (पी.डी.आई.)

- A pre delivery inspection is provided by Honda Authorised dealer so that you can enjoy longer trouble free PUMPSET life.

होण्डा के डीलर द्वारा पम्पसेट की संस्थापन पूर्व जाँच सेवा प्रदान की जाती है ताकि आप खराबी मुक्त पम्पसेट का प्रयोग कर सकें ।

- P.D.I. coupon is attached herewith.
पी.डी.आई. कूपन इसके साथ संलग्न हैं ।

2. PERIODIC MAINTENANCE SERVICE आवर्ती रखरखाव सेवा

- To enhance trouble free Pumpset life, periodic maintenance must be carried out as per maintenance schedule given in the owner's manual.

पम्पसेट के गड़बड़ी रहित चलते रहने के लिए ग्राहक पुस्तिका में दी गयी रखरखाव संबंधी समय-सारणी के मुताबिक सेट की आवर्ती रखरखाव जरूरी है ।

3. FREE SERVICE मुफ्त सेवा

- One free service coupon is attached.
एक मुफ्त सेवा कूपन संलग्न है ।

- Customer is requested to bring the Pumpset to any authorised dealer/ service point alongwith this booklet for availing free service.

उपभोक्ता से अनुरोध है कि वह मुफ्त सेवा प्राप्त करने हेतु पम्पसेट को इस पुस्तिका सहित किसी अधिकृत डीलर/सर्विस प्वाइन्ट के पास ले जाये ।

- Free service can be availed at any of the authorised dealer / service point.
किसी भी अधिकृत डीलर/सर्विस प्वाइन्ट से मुफ्त सेवा प्राप्त की जा सकती है ।

- This offer is valid only for the free service as per the schedule given in the chart below.
यह भेट केवल मुफ्त सर्विस के लिए निचे दिए समय-सारिणी के अनुसार ही वैध होगी ।

Type of Service सेवा का प्रकार	Schedule (from date of P.D.I.) समय सारणी (पी.डी.आई. की तिथि से)		Other Details अन्य विवरण
	Days दिन	Cum. operational hours संचयी परिचालन घंटे	Labour free but consumables chargeable to the customer लेबर चार्ज मुफ्त है परन्तु ऑयल एवं कन्स्यूमेबल चार्ज देय है ।
Service A सर्विस (ए)	180	100	

Honda Siel Power Products Limited

होण्डा सीएल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

LIST OF OFFICES

ऑफिस सूची

HEAD OFFICE मुख्य कार्यालय:

Plot No.5, Sector-41, Kasna, Greater Noida
Industrial Development Area,
Distt. Gautan Budh Nagar -201 310,
Uttar Pradesh.
Tel. : 0120-2341050-59
Fax : 0120-2341078-79
प्लॉट नं. ५, सैक्टर-४१, कासना, ग्रेटर नोएडा,
इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एरिया,
जि. गौतम बुद्ध नगर - २०१ ३१०, उत्तर प्रदेश
फोन : ०१२०-२३४१०५० - ५९
फैक्स : ०१२०-२३४१०७८ - ७९

AHMEDABAD अहमदाबाद

A-904, Siddhi Vinayak Tower, Behind DCP
Office, Off S.G. Highway, Makarba,
Ahmedabad-380051, Gujarat.
Tel. : 079-48000730, 9978912986
E-mail : ao.ahm@hspp.com

ए-९०४, सिद्धि विनायक टॉवर, डी.सी.पी.
ऑफिस के पीछे, ऑफ एस.जी. हाईवे, मकरबा,
अहमदाबाद - ३८० ०५१, गुजरात
फोन : ०७९-४८०००७३०, ९९७८९९२९८६
ई-मेल : ao.ahm@hspp.com

BENGALURU बेंगलुरु

D07, 7th Floor, "Solus"
Opp. Stock Exchange, Off J C Road,
Bengaluru - 560 002, Karnataka.
Tel. : 080-22217152, 22217172
E-mail : ao.blr@hspp.com

डी०७, ७वीं मंजिल, "सोलस"
स्टॉक एक्सचेंज के सामने, ऑफ जे सी रोड,
बेंगलुरु - ५६० ००२, कर्नाटक
फोन : ०८०-२२२१७१५२, २२२१७१७२
ई-मेल : ao.blr@hspp.com

BHOPAL भोपाल

10, Sarnath Complex, 2nd Floor,
Opp. M.P. Board Office,
Link Road No. 1, Shivaji Nagar,
Bhopal - 462 016, Madhya Pradesh.
Tel. : 0755-4258515, 4258538
E-mail : ao.bho@hspp.com

१०, सारनाथ कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल,
एम.पी. बोर्ड ऑफिस के सामने,
लिंक रोड नं.१, शिवाजी नगर,
भोपाल - ४६२ ०१६, मध्य प्रदेश
फोन : ०७५५-४२५८५१५, ४२५८५३८
ई-मेल : ao.bho@hspp.com

BHUBANESWAR भुवनेश्वर

Plot No. 62/63, Unit-6 Ganga Nagar,
Bhubaneswar - 751 001, Odisha
Tel. : 0674-2397352, 2397477
E-mail : ao.bhu@hspp.com

प्लॉट नं. ६२/६३, यूनिट-६ गंगा नगर,
भुवनेश्वर - ७५१ ००१, ओडिशा
फोन : ०६७४-२३९७३५२, २३९७४७७
ई-मेल : ao.bhu@hspp.com

CHANDIGARH चंडीगढ़

NH-21, Near Old Octroi,
Ambala - Chandigarh Road, Pabhat,
Zirakpur, Distt. S.A.S. Nagar
(Mohali) - 140 603, Punjab.
Tel. : 01762-531109
E-mail : ao.chd@hspp.com

एनएच-२१, नजदीक पुरानी ऑक्ट्रॉय,
अम्बाला - चंडीगढ़ रोड, पभात, जीरकपुर,
जि.एस.ए.एस. नगर - १४० ६०३, पंजाब
फोन : ०१७६२-५३११०९
ई-मेल : ao.chd@hspp.com

CHENNAI चेन्नई

1st Floor of Old No.79, New No.13,
Coundamani Flats, Bhaskar Colony,
Virugambakkam,
Chennai - 600 092, Tamil Nadu.
Tel. : 044-23767091, 23767092
E-mail : ao.mad@hspp.com

पुरानी संख्या ७९, नयी संख्या १३ की पहली मंजिल,
कौन्दामनी फ्लैट्स, भास्कर कॉलोनी,
विरुगम्बक्कम, चेन्नई - ६०० ०९२, तमिलनाडु
फोन : ०४४-२३७६७०९१, २३७६७०९२
ई-मेल : ao.mad@hspp.com

COCHIN कोचिन

Door No.44/2214 D 3, 2nd Floor,
Holy Tuesday Shopping Mall, Kaloor,
Kochi - 682 017, Kerala.
Tel. : 0484-2537753, 2537763
E-mail : ao.coch@hspp.com

दरवाजा नं. ४४/२२१४ डी३, द्वितीय मंजिल,
होली ट्यूस्डे शॉपिंग मॉल,
कल्लूर, कोचि - ६८२ ०१७, केरल
फोन : ०४८४-२५३७७५३, २५३७७६३
ई-मेल : ao.coch@hspp.com

List of Offices ऑफिस सूची

DELHI दिल्ली

Plot No. 5, Sector-41, Kasna,
Greater Noida Industrial Development Area,
Distt. Gautam Budh Nagar - 201 310, U.P.
Tel. : 0120-2590244
E-mail: ho.mktg@hspp.com

प्लॉट नं.५, सैक्टर-४१, कासना,
ग्रेटर नोएडा इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एरिया,
जि. गौतम बुद्ध नगर - २०१ ३१०, उत्तर प्रदेश
फोन : ०१२०-२५९०२४४
ई-मेल : ho.mktg@hspp.com

GUWAHATI गौहाटी

House of Mr. Pradeep Barman,
Woodland By Lane, Opp. D.G.P. Office,
Dr. B.K. Kakoti Road, Ulubari,
Guwahati - 781 007, Assam.
Tel. : 0361-2525629, 2450595
E-mail : ao.guw@hspp.com

प्रदीप बर्मन का घर, बुडलैण्ड बाई लेन,
डी.जी.पी. ऑफिस के सामने
डॉ. बी. के. काकोति रोड, उलुबारी,
गौहाटी - ७८१ ००७, असम
फोन : ०३६१-२५२५६२९, २४५०५९५
ई-मेल : ao.guw@hspp.com

HYDERABAD हैदराबाद

Door No.1-8-32/64, Plot No.64,
G. Y. R. Plaza, 2nd Floor,
Bapu Bagh Colony, P. G. Road,
Secunderabad - 500 003, Telangana.
Tel. : 040-27803449 / 27803450
E-mail: ao.hyd@hspp.com

दरवाजा सं० १-८-३२/६४, प्लॉट सं० ६४,
जी. वाई. आर प्लाजा, द्वितीय मंजिल,
बापू बाग कॉलोनी, पी. जी. रोड,
सिकंदराबाद-५०० ००३, तेलंगाना
फोन : ०४०-२७८०३४४९/२७८०३४५०
ई-मेल : ao.hyd@hspp.com

JAIPUR जयपुर

S-47, Road No. 1, Vikas Path,
Geejgarh Vihar, Hawa Sarak,
Jaipur - 302 006, Rajasthan.
Tel. : 0141-2211750
E-mail : ao.jpur@hspp.com

एस-४७, रोड नं.१, विकास पथ,
गीजगढ़ विहार, हवा सड़क,
जयपुर-३०२ ००६, राजस्थान
फोन : ०१४१-२२११७५०
ई-मेल : ao.jpur@hspp.com

JAMMU जम्मू

Plot No. 50, Yard No. 6, Near SRTC Yard,
Transport Nagar, Narwal,
Jammu, J & K
Tel. : 0191-2490058
E-mail : ravi.tandon@hspp.com

प्लॉट नं. ५०, यार्ड नं. ६
नजदीक एस.आर.टी.सी. यार्ड,
ट्रांसपोर्ट नगर, नतवाल,
जम्मू, जे एण्ड के
फोन : ०१९१-२४६००५८
ई-मेल : ravi.tandon@hspp.com

KOLKATA कोलकाता

6th Floor, 15 N Millie
Sengupta Sarani (Lindsay Street)
Near New Market Clock Tower,
Kolkata-700 087, West Bengal.
Tel. : 033-22522744, 22522745
E-mail : ao.cal@hspp.com

छठी मंजिल, १५ एन नेली सेनगुप्ता सरनि
(लिंगसे स्ट्रीट) नजदीक न्यू मार्केट, घन्टाघर,
कोलकाता-७०० ०८७, पश्चिम बंगाल
ई-मेल : ao.cal@hspp.com

LUCKNOW लखनऊ

80, Chandralok Colony, Aliganj,
Lucknow-226 024, Uttar Pradesh
Tel. : 0522-2321630, 2330213
E-mail : ao.luk@hspp.com

८०, चंद्रलोक कॉलोनी, अलीगंज,
लखनऊ - २२६ ०२४, उत्तर प्रदेश
फोन : ०५२२-२३२१६३०, २३३०२१३
ई-मेल : ao.luk@hspp.com

MUMBAI मुंबई

A-212, 2nd Floor, Sagar Tech Plaza,
Sakinaka, Andheri (E),
Mumbai - 400 072, Maharashtra
Tel. : 022 - 28511342, 28513874
E-mail : ao.mum@hspp.com

ए-२१२, द्वितीय मंजिल, सागर टेक प्लाजा,
साकीनाका, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - ४०० ०७२, महाराष्ट्र
फोन : ०२२-२८५११३४२, २८५१३८७४
ई-मेल : ao.mum@hspp.com

PATNA पटना

C/o. George Enterprises, Shalimar Cold
Storage, Near Patna Bye-Pass Road,
Anishabad, Patna - 800 002, Bihar.
Tel. : 0612 - 2258801, 2258785
E-mail : ao.pat@hspp.com

मारफत जॉर्ज एंटरप्राइजेज, शालीमार कोल्ड
स्टोरेज नजदीक पटना बाई-पास रोड,
अनिशाबाद, पटना-८०० ००२, बिहार
फोन : ०६१२-२२५८८०१, २२५८७८५
ई-मेल : ao.pat@hspp.com

RANCHI राँची

3rd Floor, Shree Vishnu Innova Tower,
Garikhana Chowk, Harmu Road,
Kishore ganj,
Ranchi - 834 001, Jharkhand.
Tel. : 0651-2214230
E-mail : ao.ranchi@hspp.com

तीसरी मंजिल, श्री विष्णु इनोवा टॉवर,
गरीखाना चौक, नजदीक पी.एन.बी. बैंक,
हरमू रोड, किशोर गंज,
राँची - ८३४ ००१, झारखण्ड
फोन : ०६५१-२२१४२३०
ई-मेल : ao.ranchi@hspp.com

PRE - DELIVERY INSPECTION(P.D.I.)

P.D.I. Dealer's Stamp

P.D.I. Date

Model

Frame No.

Engine No.

WBK 15

GHATD-

HONDA

Model

Frame No.

P.D.I. Date

Purpose

AGriculture

Dewatering

Other

COMMERCIAL USE

NON-COMMERCIAL USE

RENTAL USE

OWNER'S NAME & ADDRESS

Town

STATE

Phone No.

PDI Dealer Name & Address

CODE

Customer's Signature

Dealer's Signature

Company Copy

SERVICE A

Warranty lapses on:

Service Date:

Cumm. Oper. Hours

Servicing Dealer's Stamp:

HONDA

Model

Frame No.

P.D.I. Date

Service Date

Cumm. oper. Hours

WBK 15

GHATD-

GHATD-

P.D.I. Dealer Name & Place

OWNER'S NAME & ADDRESS

Town

STATE

Phone No.

Servicing Dealer Name & Address

CODE

Customer's Signature

Dealer's Signature

Company Copy

To be availed within 100 operation hours or 180 days from the date of PDI, whichever is earlier.

SERVICE A

Unit received back after service in good working condition. Operation listed on the back have been performed to my entire satisfaction. No labour has been charged for the service, only consumables were charged.

Operations

- Check for Engine / Model No. & tally with documents.
- Check for damage during transit.
- Check for tool kit.
- Check for air cleaner element condition.
- Fill up recommended engine oil in crankcase.
- Pour fuel, start & see the performance for Engine R.P.M.

OK	Not OK
----	--------

YES	NO
-----	----

OK	Not OK
----	--------

OK	Not OK
----	--------

YES	NO
-----	----

Idle	Max
OK	Not OK
OK	OK

Noise

Vibration

Leakage

Normal	Abnormal
--------	----------

Normal	Abnormal
--------	----------

Yes	No
-----	----

- Tighten accessible nuts & bolts to recommended torque limits.

Tightening	Not Required
Required	Required

- Explained safe usage of the product to the customer.

Operations

- Change engine oil with recommended grade.
- Clean air cleaner element.
- Clean spark plug & adjust if required.
- Start & see the performance for Engine R.P.M.

YES	NO
-----	----

YES	NO
-----	----

Adjustment	Not Required
Required	Required

Idle	Maxi
OK	Not OK
OK	OK

Noise

Vibration

Leakage

Normal	Abnormal
--------	----------

Normal	Abnormal
--------	----------

Yes	No
-----	----

- Tighten accessible nuts & bolts to recommended torque limits.

Tightening	Not Required
Required	Required

- Clean fuel filter and strainer.

OK	Not OK
----	--------

- Check tightening of muffler assy., air cleaner assy., & recoil starter assy.

Tightening	Not Required
Required	Required

- Explained safe usage of the product to the customer.

PRE - DELIVERY INSPECTION(P.D.I.)

P.D.I. Dealer's Stamp P.D.I. Date

Model Frame No.

WBK 15 WAND-

GHATD- Engine No.

HONDA

PRE - DELIVERY INSPECTION (P.D.I.)

Model Purpose

WBK 15 Agriculture

P.D.I. Date Dewatering

GHATD- Other

COMMERCIAL USE

NON-COMMERCIAL USE

RENTAL USE

- I (Customer) acknowledge that
1. Owner's manual & tool kit received in good condition.
 2. Dealer has educated me on maintenance, operations, free services, warranty and the safe use.
 3. No labour has been charged on PDI. Only consumables were charged.
 4. Warranty would lapse on

OWNER'S NAME & ADDRESS

Town STATE

Phone No.

PDI Dealer Name & Address

CODE

Customer's Signature Dealer's Signature

Dealer Copy

SERVICE A

Warranty lapses on: Servicing Dealer's Stamp:

Service Date: Cumm. Oper. Hours

HONDA

SERVICE A

To be availed within 100 operation hours or 180 days from the date of PDI, whichever is earlier.

Model Frame No.

WBK 15 WAND-

Service Date Engine No.

GHATD-

P.D.I. Dealer Name & Place

OWNER'S NAME & ADDRESS

Town STATE

Phone No.

Servicing Dealer Name & Address

CODE

Unit received back after service in good working condition. Operation listed on the back have been performed to my entire satisfaction. No labour has been charged for the service, only consumables were charged.

Customer's Signature Dealer's Signature

Dealer Copy

Operations

- Check for Engine / Model No. & tally with documents.
- Check for damage during transit.
- Check for tool kit.
- Check for air cleaner element condition.
- Fill up recommended engine oil in crankcase.
- Pour fuel, start & see the performance for Engine R.P.M.

OK	Not OK
----	--------

YES	NO
-----	----

OK	Not OK
----	--------

OK	Not OK
----	--------

YES	NO
-----	----

Idle	Max
OK	Not OK
OK	OK

Noise

Vibration

Leakage

- Tighten accessible nuts & bolts to recommended torque limits.

- Explained safe usage of the product to the customer.

Normal	Abnormal
--------	----------

Normal	Abnormal
--------	----------

Yes	No
-----	----

Tightening	Not Required
Required	Required

Operations

- Change engine oil with recommended grade.
- Clean air cleaner element.
- Clean spark plug & adjust if required.
- Start & see the performance for Engine R.P.M.

YES	NO
-----	----

YES	NO
-----	----

Adjustment	Not Required
Required	Required

Idle	Maxi
OK	Not OK
OK	OK

Noise

Vibration

Leakage

- Tighten accessible nuts & bolts to recommended torque limits.

- Clean fuel filter and strainer.

- Check tightening of muffler assy., air cleaner assy., & recoil starter assy.

- Explained safe usage of the product to the customer.

Normal	Abnormal
--------	----------

Normal	Abnormal
--------	----------

Yes	No
-----	----

Tightening	Not Required
Required	Required

OK	Not OK
----	--------

Tightening	Not Required
Required	Required

Disposal

To protect the environment, do not dispose of the used water pump, engine oil, etc. carelessly by leaving them in the waste.

Observe the local laws or regulations or consult your authorized Honda dealer to dispose of these parts.

Please dispose of used engine oil in a manner that is compatible with the environment. We suggest you take it in a sealed container to your local service station for reclamation. Do not throw it in the trash or pour it on the ground.

निपटान

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त वाटर पम्प, इंजन ऑयल आदि को लापरवाही से अपशिष्ट में छोड़कर उनका निपटान न करें। इनका निपटान करने के लिए स्थानीय कानूनों व नियमों का निरीक्षण करें या अपने अधिकृत होण्डा डीलर से परामर्श करें।

कृपया इस्तेमाल किए गए इंजन ऑयल को ऐसे तरीके से निपटान करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो। हम आपको सुझाव देते हैं कि आप इसे सील बंद कंटेनर में संशोधन के लिए अपने स्थानिय सर्विस स्टेशन पर ले जाएं। इसे कचरे में न फेंकें और न ही जमीन पर बहायें।

HONDA



Honda Siel Power Products Limited

Regd. Off.: 409, DLF Tower B,
Jasola Commercial Complex,
New Delhi -110 025.

CIN : L40103DL2004PLC203950
E-mail : ho.mgt@hspp.com
Website : www.hondasielpower.com
Tel. No. : 1800 11 2323

4MYB0D02
00X4M-YB0-D020

To access information about
Operations, Maintenance &
Troubleshooting, please visit:
www.hppsv.com/IND/ or scan



© Honda Siel Power Products Ltd. 2015

Ⓟ XXX.YYYY.MM
Printed in XXXXX